

ईश्वरीय  
खजाना  
टीम  
*Presents*

# विशेष पुरुषार्थ

तीव्रता से आगे बढ़ने की श्रेष्ठ युक्तियां

यह श्रेष्ठ पुरुषार्थ की  
भिन्न भिन्न युक्तियाँ  
बाबा की रोज  
जैसे मीठी थपकी है  
अन्तर्मन में  
जो समा ले इसे  
जीवन में उसकी सफलता  
शत प्रतिशत पक्की है...

कई समझते हैं – हम बच्चे तो हैं ना। परन्तु सारा दिन  
याद नहीं करेंगे तो खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा..




POWER OF HAPPINESS





**व्यर्थ बातों में समय  
और संकल्प  
गंवाना - यह भी  
अपवित्रता है।**





# Swayam ke Swabhaav Sanskar ka Paper



बापदादा देख रहे थे जितना चाहते हैं, उतना परिवर्तन क्यों नहीं होता? कारण क्या है, क्यों नहीं सदा के लिए समाप्त हो जाता है, तो क्या देखा? अपने प्रति वा दूसरों के प्रति संकल्प करते हो कि यह कमजोरी फिर आने नहीं देंगे वा दूसरे के प्रति सोचते हो कि जो भी किसी आत्मा के प्रति संस्कार के कारण वा हिसाब - किताब चुत्कू होने के कारण जो भी संकल्प में वा बोल में वा कर्म में संस्कार टकराते हैं, उनका परिवर्तन करेंगे। लेकिन समय पर फिर से क्यों रिपीट होता है? उसका कारण? सोचते हो कि आगे से इस आत्मा के इस संस्कार को जानते हुए स्वयं को सेफ रख उस आत्मा को भी शुभ भावना - शुभ कामना देंगे लेकिन जैसे दूसरे की कमजोरी देखने, सुनने वा ग्रहण करने की आदत नैचरल और बहुतकाल की हो गई है, उसके बदले नहीं रखेंगे - यह तो बहुत अच्छा, लेकिन उसके स्थान पर क्या देखेंगे, क्या उस आत्मा से ग्रहण करेंगे - वह बारबार अटेन्शन में नहीं रखते। यह नहीं करना है - यह याद रहता है लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति क्या करना है, सोचना है, देखना - वह बातें नैचरल अटेन्शन में नहीं रहती। जैसे कोई स्थान खाली रहता, उसको अच्छे रूप से यूज नहीं करते तो खाली स्थान में फिर भी किचड़ा या मच्छर आदि स्वतः ही पैदा हो जाते। क्योंकि वायुमण्डल में मिट्टी - धूल, मच्छर है ही; तो वह फिर से थोड़ा - थोड़ा करके बढ़ जाता है। जगह भरनी चाहिए। जब भी आत्माओं के सम्पर्क में आते हो, पहले नैचरल परिवर्तन किया हुआ श्रेष्ठ संकल्प का स्वरूप स्मृति में आना चाहिए। क्योंकि नॉलेजफुल तो हो ही जाते हो। सभी के गुण, कर्तव्य, संस्कार, सेवा, स्वभाव परिवर्तन के शुभ संस्कार वा स्थान सदा भरपूर होगा तो अशुद्ध को स्वतः ही समाप्त कर देगा।--03-03-1988



## Achanak Aur Eveready





## सेवा और स्वभाव-संस्कार

बापदादा- 23.02.1997

स्वभाव-संस्कारों को सेवा के समय देखो ही नहीं। देखते हैं ना-इसने यह किया, इसने यह कहा -तो सफलता दूर हो जाती है। देखो ही नहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी और बहुत अच्छा, यह दो शब्द हर कार्य में यूज़ करो। स्वभाव वैरायटी हैं और रहने भी हैं। स्वभाव को देखा तो सेवा खत्म। बाबा करा रहा है, बाबा को देखो, बाबा का काम है। इसकी ड्यूटी नहीं है, बाबा की है। तो बाप में तो स्वभाव नहीं है ना। तो स्वभाव देखने नहीं आयेगा।



## Self Management

जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और जिनके साथ छेड़खानी करने पर वह और अधिक बढ़ जाती है। किंतु अगर हम मात्र साक्षी होकर उन समस्याओं को देखते हैं तो वे समय के साथ अपने आप ही दूर हो जाती हैं।

जीवन में जिन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें अपने मूल्यों से दूर जाना पड़े तो हम ऐसे कदम नहीं उठाए तो अच्छा है। हम अपने अच्छे कर्मों व निर्मल व्यवहार को सदैव कायम रखें और बाकी सब कुछ शिव बाबा पर छोड़ दें। जो बातें हमारे लिए अति मुश्किल प्रतीत होती हैं, उन बातों को शिव बाबा क्षण मात्र में ही जड़ से सुलझा देते हैं।

Om Shanti



किसी के बारे में बार – बार सोचने से,  
उनकी कमज़ोरियों लोगों को बताने से,  
वह कमज़ोरी हमारे मन पर बैठ जाती है।

- हमारी शक्ति घटती है,
- उन्हें हमसे वही vibrations मिलते हैं,
- वह और भी कमज़ोर होते हैं।

स्व का चिंतन, स्व पर ध्यान रखने से,  
अपनी शक्ति बढ़ेगी, हमसे सबको सुख मिलेगा।



Conflict between two starts  
resolving when **one person** starts  
to **dissolve** the image of other as  
wrong or bad.



BRAHMA KUMARIS

[facebook.com/brahmakumaris](https://facebook.com/brahmakumaris) | [youtube.com/brahmakumaris](https://youtube.com/brahmakumaris)





## **Brahma Kumaris Websites**

Main BK website [www.shivbabas.org](http://www.shivbabas.org) OR  
[www.brahmakumari.org](http://www.brahmakumari.org) (by SBS team)

Int'l website: [www.brahmakumaris.org](http://www.brahmakumaris.org)

India website: [www.brahmakumaris.com](http://www.brahmakumaris.com)

BK Sustenance website:  
[www.bksustenance.net](http://www.bksustenance.net)

All Data hosted on [www.bkdrluhar.com](http://www.bkdrluhar.com)

Murli Websites: [babamurli.net](http://babamurli.net)  
and [madhubanmurli.org](http://madhubanmurli.org)

[www.omshantimusic.net](http://www.omshantimusic.net)

[www.bkgoogle.org](http://www.bkgoogle.org)

[www.bksewa.org](http://www.bksewa.org)

[www.bkinfo.in](http://www.bkinfo.in)

[www.bk.ooo](http://www.bk.ooo)

[www.brahmakumari.org/centres](http://www.brahmakumari.org/centres)

NEW

[www.IshvariyaKhajana.BKhq.org](http://www.IshvariyaKhajana.BKhq.org)